

## प्रेस नोट दिनांक-29.05.2021

(1). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 36 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा कुचारम मोड़ वहद ग्राम कुचारम से अभियुक्त बबली यादव पुत्र रामकिशन यादव निवासी बिलखरी का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी-

20 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू ब्राण्ड

### बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव थाना पहाड़ी

2. आरक्षी दीपक विश्वकर्मा

(ii). उ0नि0 श्री दिनेशचन्द्र तिवारी थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फोटो तिवारी पुत्र बृजगोपाल तिवारी निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 16 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी-

16 अदद क्वार्टर देशी शराब

### बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दिनेशचन्द्र तिवारी थाना भरतकूप

2. आरक्षी उपेन्द्र यादव

(2). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया तथा उनकी टीम द्वारा भदेदू पुल के पास से डीसीएम वाहन संख्या-यूपी-50-बीटी-8219 में 04 अदद भैंस 01 अदद पड़िया व 04 पड़वा टूस टूस कर भर कर ले जाते हुये अभियुक्त रज्जा वली पुत्र छुट्टन निवासी मु0 अंसारगंज थाना करारी जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में 11 पशु क्रूरता अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व उपरोक्त डीसीएम को सीज किया गया।

### बरामदगी-

1. 04 अदद भैंस 01 अदद पड़िया व 04 पड़वा

2. डीसीएम वाहन संख्या-यूपी-50-बीटी-8219

### बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना राजापुर

2. आरक्षी जितेन्द्र मौर्या

3. आरक्षी अखिलेश कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामिया, वाँछित, हिस्ट्रीशीटर व मफरूर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का सदस्य, 20000/- रूपये के इनामिया एवं वाँछित अभियुक्त विजय बहादुर पटेल उर्फ प्रभास पुत्र चन्द्रभान पटेल निवासी छिपनी बाहरखेड़ा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-17.09.2020 को कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा भैरोपांगा डॉट पुल के पास से वाहन चोर गैंग के 03 सदस्यों को 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिल एवं 03 अदद चोरी किये गये मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त विजय बहादुर पटेल उपरोक्त अपने अन्य साथियों के साथ भाग गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 486/2020 धारा 41/411/413/467/468/471 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। कोतवाली कर्वी पुलिस टीम वाहन चोर गैंग के भागे हुए अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थी कि आज दिनांक-29.05.2021 को अभियुक्त विजय बहादुर पटेल उपरोक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त विजय बहादुर पटेल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु 20000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3. आरक्षी लवलेश कुमार

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 29.05.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर चित्रकूट द्वारा ग्राम खटवारा एवं कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ बाजार, शिवपुर तिराहा, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा शीतलपुर तरौहा में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ व बैंक में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।